



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 1979/वैशाख 26, 1901

No. 207]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 1979/VAISAKHA 26, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 मई, 1979

का०आ० 285(अ).—तमिलनाडु राज्य के 31-थंजावुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन मस्य श्री एस० डी० से सोमसुन्दरम द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के परिणामस्वरूप उस सदन में एक रिक्ति हो गई है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह रिक्ति को भरने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन तदधीन बनाए गए नियमों अधीन किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार तारीख 25 जून, 1979 से पूर्व एक व्यक्ति निर्वाचित करे ।

[सं० 100/न०ना०-नो०म०/1/78(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th May, 1979

S.O. 285(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri S. D.

Somasundaram, member elected to that House from 31-Thanjavur parliamentary constituency in the State of Tamil Nadu ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy 25 June, 1979, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/TN-HP/1/78(1)]

का०आ० 286(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 16 मई, 1979 की अधिसूचना सं० 100/न० ना०-नो०म०/1/78(1) के अनुसरण में तमिलनाडु राज्य के 31-थंजावुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए 23 मई, 1979 अन्तिम तारीख (बुधवार) ;
- (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की 24 मई, 1979 (बृहस्पतिवार) ; तारीख
- (ग) अस्थित्विताएं वापस लेने के लिए 26 मई, 1979 (शनिवार) ; अन्तिम तारीख

(ब) वह तारीख जिसको यदि 17 जून, 1979 (रविवार) ;
आवश्यक हुआ तो मतदान तथा
होगा—

(क) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन 25 जून, 1979 (सोमवार) ।
धन पूरा कर लिया जाएगा

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/त० ना०-लो० सं०/1/78(2)]

S.O. 286(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 31-Thanjavur parliamentary constituency in the State of Tamil Nadu in pursuance of its notification No. 100/TN-HP/1/78(1), dated 16 May, 1979,—

- (a) 23 May, 1979 (Wednesday), as the last date for making nominations ;
- (b) 24 May, 1979 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 26 May, 1979 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 17 June, 1979 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken ; and

(e) 25 June, 1979 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/TN-HP/1/78(2)]

क०सा० 287(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसूचना में निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 16 मई, 1979 की अधिसूचना सं० 100/त०ना०-लो०सं०/1/78(1) के अनुसूचना में तमिलनाडु राज्य के 31-थंजापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वह्न से 4.00 अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं० 100/त० ना०-लो० सं०/1/78(3)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 287(E).—In pursuance of section 58 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 31-Thanjavur parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/TN-HP/1/78(1), dated 16 May, 1979.

[No. 100/TN-HP/1/78(3)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.